

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – षष्ठ

दिनांक -१८ -०६ - २०२१

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज सी, सी, ए,के अन्तर्गत प्रेरक प्रसंग के बारे में अध्ययन करेंगे।

## गुजरा हुआ वक्त दोबारा नहीं आता : प्रेरक प्रसंग कहानी

एक नगर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था, उस आदमी ने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया, उसके पास इतना धन था, कि वह उस नगर को भी खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन भर में कभी किसी की मदद तक नहीं की।

इतना धन होने के बावजूद, उसने अपने लिए भी उस धन का उपयोग नहीं किया, न कभी अपनी पसंद के कपड़े, भोजन, एवं अन्य इच्छा की पूर्ति तक नहीं की। वह केवल अपने जीवन में पैसे कमाने में व्यस्त रहा, वह इतना व्यस्त एवं मस्त हो गया पैसा कमाने में उसे उसके बुढ़ापे का भी पता नहीं चला, और वह जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुँच गया।

इस तरह उसके जीवन का अंतिम दिन भी नज़दीक आ गया और यमराज उसके प्राण लेने धरती पर आये, जिसे देख कर वह आदमी डर गया, यमराज ने कहा, “अब तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, और मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ।”

सुनकर वह आदमी बोला – “प्रभु अभी तक तो मैंने अपना जीवन जिया भी नहीं, मैं तो अभी तक आपने काम में व्यस्त था”, अतः मुझे अपनी कमाई हुई धन दौलत का उपयोग करने के लिए समय चाहिए।

यमराज ने उत्तर दिया – “मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, तुम्हारे जीवन के दिन समाप्त हो गये हैं, और अब दिनों को और नहीं बढ़ाया जा सकता”।

यमराज की यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा- "प्रभु मेरे पास इतना पैसा है, आप चाहो तो आधा धन लेकर मुझे जीवन का एक और वर्ष दे दीजिये"।

प्रतियुत्तर में यमराज ने कहा ऐसा संभव नहीं। इस पर आदमी ने कहा – "आप चाहो, तो मेरा 90 प्रतिशत धन लेकर मुझे 1 महीने का समय ही दे दीजिए।"

यमराज ने फिर मना कर दिया। फिर आदमी ने कहा- "आप मेरा सारा धन लेकर 1 ही घंटा दे दीजिये"। तब यमराज ने उसको समझाया – बीते हुए समय को धन से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार जिस आदमी को अपने धन पर अभिमान था, उसे वह सब व्यर्थ लगने लगा, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण जीवन उस व्यर्थ चीज को कमाने में लगा दिया, जो आज उसे जिंदगी का 1 घंटा भी खरीद के नहीं दे पाई। दुखी मन से वह अपनी मौत के लिए तैयार हो गया।

### **कहानी से शिक्षा**

तो बच्चों , आपने देखा की जिस आदमी ने अपना संपूर्ण जीवन जिसको कमाने में लगा दिया, वही चीज उसके लिए एक सेकंड का समय भी नहीं खरीद पाई। जीवन भगवान द्वारा दिया गया बहुमूल्य उपहारों में से एक है, जिसको पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन के हर पल का आनंद लीजिये एवं उसको एन्जाय करिए। कहा गया है जीवन बहुत अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना जाने दे, हर पल को खुशी के साथ जिए तभी आप अपने जीवन से खुश हो सकते है।